



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1931 (श0)  
(सं0 पटना 160) पटना, शुक्रवार, 26 फरवरी 2010

सं0 3ए-2-वे0पु0-16/09—2110  
वित्त विभाग

संकल्प  
26 फरवरी 2010

**विषय:—वित्त विभागीय संकल्प सं0-630, दिनांक 21 जनवरी 2010 में संशोधन ।**

राज्य सरकार द्वारा अपने सेवी वर्ग के लिए केन्द्र के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण, वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा किया गया है ।

2. वित्त विभाग के संकल्प 363वि0(2), दिनांक 17 जनवरी 2009 द्वारा निम्नांकित छः राज्य सेवाओं को प्रीमियर राज्य सेवा घोषित करते हुए 8000-13500 का प्रवेश वेतनमान निर्धारित किया गया था । तथा औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना में पे-बैंड-3 के अन्तर्गत ग्रेड-वेतन 5400 रु0 प्रदान करने का निर्णय लिया गया था । राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका 4.3 में पुनरीक्षित वेतन संरचना में इन सेवाओं के लिए वर्णित अपुनरीक्षित वेतनमान एवं पुनरीक्षित वेतन संरचना का उल्लेख किया है जिसे वित्त विभाग के उपर्युक्त वर्णित संकल्प में यथारूप नहीं दर्शाया जा सका । अतः इसे निम्न प्रकार संशोधित समझा जायः—

क्र0 सं0	पदनाम (मूलकोटि)	अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान		अभ्युक्ति
			पे-बैंड	ग्रेड-पे	
1	बिहार प्रशासनिक सेवा	6500-10500 (8000-13500)	2	5400	चार वर्ष की सेवा एवं सेवा संपुष्टि के पश्चात् ग्रेड-पे-5400, पे-बैंड-3
2	बिहार पुलिस सेवा	6500-10500 (8000-13500)	2	5400	यथोपरि

क्र० सं०	पदनाम (मूलकोटि)	अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान		अभ्युक्ति
			पे-बैंड	ग्रेड-पे	
3	बिहार स्वास्थ्य सेवा	6500-10500 (8000-13500)	2	5400	यथोपरि
4	बिहार भेटेनरी सेवा	6500-10500 (8000-13500)	2	5400	यथोपरि
5	बिहार अभियंत्रण सेवा	6500-10500 (8000-13500)	2	5400	यथोपरि
6	बिहार वित्त सेवा	6500-10500 (8000-13500)	2	5400	यथोपरि

3. बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) में इंस्पेक्टर ऑफ ब्यायलर्स पद का पुनरीक्षित वेतनमान वेतन पुनरीक्षण आदेश के शेड्यूल-III में उल्लेख नहीं किया जा सका है। यह पद इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के पद के समकक्ष है जिसका अपुनरीक्षित वेतनमान 6500-10500 था। इसका पुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0-2+ ग्रेड पे 4800 है जो चार वर्ष की सेवा एवं सेवा संपुष्टि के पश्चात पे बैंड-3, ग्रेड पे 5400 में परिवर्तित होगा।

4. वेतन समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 3.20.9 में श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक स्टेट गेस्ट हाउस को सरकार के विशेष आदेश के क्रम में उनके कार्यकाल तक इस पद पर पी0बी0-3+5400 वेतनमान दिए जाने की अनुशंसा की गई। उनके पद से हटने के साथ ही इस पद का वेतनमान पी0बी0-2+4200 रहेगा, जो शेड्यूल-III में दर्शाया गया है। अतः श्री कृष्ण कुमार यादव का पी0बी0-3+5400 के वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा।

5. उक्त संकल्प की कंडिका-7 (A)(iii) में **"Grade-pay corresponding to the post as indicated in schedule-III will be payable"** अंकित है। इसे **"Grade-pay corresponding to the existing scale will be payable"** समझा जाए।

6. वर्तमान में अन्य सभी सेवा/संवर्ग/पद के संबंध में अधिसूचित ग्रेड-पे एवं वेतन बैंड यथावत् रहेंगे।

आदेश:- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रबीन्द्र पवार,  
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 160-571+1000-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>